

हमारे यात्रा करने के तरीके में बदलाव हमें एक-साथ रखता है

विक्टोरिया आपका धन्यवाद।
आपके द्वारा सार्वजनिक परिवहन के साधनों में यात्रा करने के तरीके में बदलाव से, इस वायरस के फैलाव की गति कम हो जाएगी।



इसका मतलब है कि, अगर आपके लिए संभव हो तो सवेरे और शाम को यात्रा की व्यस्ततम समयावधि से बाहर के समय में यात्रा करना।



अपनी यात्रा के पहले और बाद में अपने हाथ धोना।



जहाँ भी संभव हो दूसरों से दूरी रखना।



और अगर आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हों तो यात्रा नहीं करना।

यह हम सब पर निर्भर है कि हम इसे सफल बनाएं।
हमें सुरक्षित रखने के लिए, संपूर्ण नैटवर्क में अतिरिक्त सफाई की जाती है।



क्या आपने पैसे जमा करा दिए हैं?

अपनी यात्रा की शुरुआत के समय छुआकर सक्रिय करने (टच ऑन) से पहले, किसी myki मशीन से अपनी बाकी बची रकम का पता लगाएं। हमारे पास ऑनलाइन या आपके निकटतम स्टॉप या स्टेशन पर बिना नकद दिए पैसे जमा करवाने (टॉप अप) के कई तरीके हैं।

सुबह-सुबह निःशुल्क यात्रा

रेल यात्रियों को सुबह-सुबह निःशुल्क यात्रा का लाभ मिल सकता है, क्योंकि अगर आप सवेरे 7.15am से पहले यात्रा प्रारंभ व समाप्त (टच ऑन व टच ऑफ) करते हैं तो सभी महानगरीय ट्रेनों में यात्रा निःशुल्क है।

दूर-दूर रहना

हमें एक-साथ रखता है

